



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 30.04.2021

1-थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस व क्राइम ब्रांच के संयुक्त ऑपरेशन द्वारा रेमिडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से रेमिडेसिविर इंजेक्शन 03 वायल्स, 03 मोबाइल फोन, ब्रेजा कार बरामद।

दिनांक 29.04.2021 को थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस व क्राइम ब्रांच नोएडा की कार्यवाही में रेमिडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुये तीन अभियुक्तों 1. हमजा पुत्र फिबजुर रहमान 2. मुजिबुर रहमान पुत्र बहाव 3. डाक्टर निशरत इमाम पुत्र स्व0 अली इमाम को तीन वायल्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। तीनों व्यक्तियों मे डॉ0 ईमाम जिसने स्वयं को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल दिल्ली मे कार्यरत बताया है अपने दो साथियो हमजा एवं मुजिब के साथ मिलकर जरूरत मन्दो को 35 हजार तक का इन्जेक्शन बेच रहा था, डॉ0 ईमाम द्वारा एनसीआर क्षेत्र में अस्पतालों मे सेवाये प्रदान की जाती है जिससे वह अस्पतालो से जरूरतमन्दो के नाम पर इन्जेक्शन प्राप्त कर लेता था एवं अपने साथियो के साथ मिलकर जरूरतमन्दों को 25 से 35 हजार मे एक रेमिडिसिवर इंजेक्शन बेचता था ।

अभियुक्तों का विवरण:

1. हमजा पुत्र फिबजुर रहमान निवासी मकान नं0 4 गली नं0 01 पीर कालोनी साहिबाबाद गाजियाबाद,
2. मुजिबुर रहमान पुत्र बहाव निवासी मकान नं0 4 गली नं0 01 पीर कालोनी साहिबाबाद गाजियाबाद,
3. डाक्टर निशरत इमाम पुत्र स्व0 अली इमाम हाल निवासी सी- 6, 532 मिलन विहार अपार्टमेंट आई.पी. एक्सटेंशन पड़पड़ गंज एवं मूल पता मोहल्ला खितारी आरा भोजपुर बिहार

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0स0 276/2021 धारा 420 भादंवि व धारा 18ए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व धारा 3 महामारी अधिनियम 1897 व धारा 52/53 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 थाना सै0 24 नोएडा

बरामदगी का विवरण:

1. रेमिडेसिविर इंजेक्शन 03 वायल्स
2. मोबाइल फोन 03
3. ब्रेजा कार (यूपी-32-इजी-2195)



2- थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा चोरी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोसा0 व 01 विद्युत मोटर बरामद।

दिनांक 30.04.2021 को थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 01 अभियुक्त लवकुश पुत्र महिपाल निवासी ग्राम बोहिच थाना शिकारपुर जिला बुलंदशहर वर्तमान निवासी किराये का मकान सूरजपुर को हल्दौनी मोड शराब के ठेके के पास कुलेसरा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मोसा0 व विद्युत मोटर बरामद किया गया है।

अभियुक्त का विवरण:

लवकुश पुत्र महिपाल निवासी ग्राम बोहिच थाना शिकारपुर जिला बुलंदशहर वर्तमान निवासी किराये का मकान सूरजपुर

पंजीकृत अभियोग /आपराधिक इतिहास का विवरण:

1. मु0अ0स0 213/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना इकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर

2. मु0अ0स0 214/21 धारा 401/380/457/482/411 भादवि थाना इकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर।

3. मु0अ0स0 216/21 धारा 379 भादवि थाना इकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1. 01 मो0सा0 डीएल 4एस सीएच 6717

2. 01 विद्युत मोटर



#जनपद गौतमबुद्धनगर मे लगातार बढ रहे कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह द्वारा बडी पहल करते हुये एक सराहनीय निर्णय लिया गया है।

जनपद में यदि किसी कोरोना से पीडित व्यक्ति को प्लाज्मा की आवश्यकता है तो पुलिस विभाग के ठीक हो चुके संक्रमित पुलिस कर्मी द्वारा कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को प्लाज्मा डोनेट करने के लिये तैयार है तथा इसी मुहिम को आगे ले जाते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने आमजन से भी अपील करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी को हराने में हम सभी को एकजुट होना होगा और जो आम नागरिक कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं उन्हें भी इस मुहिम में गौतमबुद्धनगर पुलिस के साथ जुड़कर कोरोना के विरुद्ध इस संघर्ष में साथ आना होगा। इस से प्रेरित होकर अब आम नागरिक भी इस मुहिम में जुड़ रहे है, इसी क्रम में निरीक्षक अनूप कुमार सिंह वर्तमान तैनाती क्राइम ब्रांच गौतमबुद्धनगर ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवीय कार्य में अपना योगदान किया है। पुलिस द्वारा किये जा रहे इन मानवीय कार्य से प्रेरित होकर सक्षम सचान निवासी जे ब्लॉक सेक्टर 23 संजय नगर गाज़ियाबाद व विनय प्रताप निवासी बी 491 टाउनशिप एन टीपीसी दादरी गौतमबुद्धनगर द्वारा प्लाज्मा डोनेट कर इस मानवीय कार्य मे योगदान दिया गया।

